



COM 312

B.Com. VIth SEMESTER EXAMINATION, 2023-24

COMMERCE

(Accounting for Managers-I)

(CBCS Mode)

AFFIX PRESCRIBED
RUBBER STAMP

Paper ID

(To be filled in the
OMR Sheet)

Date (तिथि) : _____

5420

अनुक्रमांक (अंकों में) :

Roll No. (In Figures) :

अनुक्रमांक (शब्दों में) :

Roll No. (In Words) :

Time : 1:30 Hrs.

समय : 1:30 घण्टे

Max. Marks : 75

अधिकतम अंक : 75

नोट : पुस्तिका में 50 प्रश्न दिये गये हैं, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा।

Important Instructions :

1. The candidate will write his/her Roll Number only at the places provided for, i.e. on the cover page and on the OMR answer sheet at the end and nowhere else.
2. Immediately on receipt of the question booklet, the candidate should check up the booklet and ensure that it contains all the pages and that no question is missing. If the candidate finds any discrepancy in the question booklet, he/she should report the invigilator within 10 minutes of the issue of this booklet and a fresh question booklet without any discrepancy be obtained.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थानों पर लिखेंगे जो इसके लिए दिये गये हैं, अर्थात् प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा साथ दिये गये ओ०एम०आर० उत्तर पत्र पर, तथा अन्यत्र कहीं नहीं लिखेंगे।
2. प्रश्न पुस्तिका मिलते ही अभ्यर्थी को जाँच करके सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। यदि कोई विसंगति है तो प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही कक्ष परिप्रेक्षक को सूचित करना चाहिए और बिना त्रुटि की दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लेना चाहिए।

1. The main role of management accounting is-
 - (A) Decision making
 - (B) Planning
 - (C) Direction
 - (D) Provision of information to management
2. The use of management accounting is :
 - (A) Legally obligators
 - (B) Compulsory
 - (C) Optional
 - (D) Compulsory to some and optional to other
3. Management accounting is framework for :
 - (A) For Costing
 - (B) For Decision making
 - (C) For Management
 - (D) For Accounting
4. Who coined the concept of management accounting ?
 - (A) Robert Anthony
 - (B) James H Bliss
 - (C) Michael Porter
 - (D) J. Batty
5. Management Accounting is concern with :
 - (A) The problem of choice-making
 - (B) Cause and effect relationship
 - (C) Recording of transaction
 - (D) Only (A) and (B)
1. प्रबंधकीय लेखाविधि की मुख्य भूमिका _____ है :
 - (A) निर्णय लेना
 - (B) योजना बनाना
 - (C) निर्देशन
 - (D) प्रबंधन को सूचना का प्रावधान
2. प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग _____ है :
 - (A) वैधानिक रूप से बाध्यकारी
 - (B) अनिवार्य
 - (C) ऐच्छिक
 - (D) कुछ के लिए अनिवार्य एवं अन्य के लिए ऐच्छिक
3. प्रबंधकीय लेखाविधि एक फ्रेमवर्क है :
 - (A) लागत लेखांकन के लिए
 - (B) निर्णयन के लिए
 - (C) प्रबंध के लिए
 - (D) लेखांकन के लिए
4. प्रबंधन लेखांकन की अवधारणा किसने गढ़ी?
 - (A) रॉबर्ट एंथोनी
 - (B) जेम्स एच ब्लिस
 - (C) माइकल पोर्टर
 - (D) जे० बैटी
5. प्रबंधकीय लेखांकन मूलतः सम्बन्धित है :
 - (A) चयन की समस्या से
 - (B) कारण-परिणाम सम्बन्धों से
 - (C) व्यवहारों के अभिलेखन से
 - (D) सिर्फ (A) एवं (B)

6. The financial statement are :
- (A) Estimated facts
(B) Anticipated facts
(C) Recorded facts
(D) None of these
7. Horizontal analysis is also known as _____ :
- (A) Time series Analysis
(B) Inter-firm Analysis
(C) Dynamic Analysis
(D) All the above
8. Vertical Analysis is also known as :
- (A) Dynamic Analysis
(B) Static Analysis
(C) Internal Analysis
(D) None of these
9. Comparison of financial statements indicates the trend of _____ of the business :
- (A) Profitability
(B) Performance
(C) Financial position
(D) All the above
10. Ideal level of current ratio is :
- (A) 2:1
(B) 4:1
(C) 1:1
(D) 3:1
6. वित्तीय विवरण _____ होते हैं :
- (A) अनुमानित तथ्य
(B) प्रत्याशित तथ्य
(C) अभिलिखित तथ्य
(D) इनमें से कोई नहीं
7. क्षैतिज विश्लेषण _____ के नाम से भी जाना जाता है :
- (A) कालमाला विश्लेषण
(B) अन्तर्फर्म विश्लेषण
(C) गतिशील विश्लेषण
(D) उपर्युक्त सभी
8. लम्बवत् विश्लेषण जाना जाता है :
- (A) गतिशील विश्लेषण
(B) स्थिर विश्लेषण
(C) आन्तरिक विश्लेषण
(D) इनमें से कोई नहीं
9. वित्तीय विवरणों की तुलना व्यवसाय के _____ की प्रवृत्ति को इंगित करता है :
- (A) लाभदायकता
(B) निष्पादन क्षमता
(C) वित्तीय स्थिति
(D) उपर्युक्त सभी
10. चालू अनुपात का आदर्श स्तर है :
- (A) 2:1
(B) 4:1
(C) 1:1
(D) 3:1

11. Inventory turnover ratio is :

- (A) Activity ratio
- (B) Profitability ratio
- (C) Solvency ratio
- (D) Liquidity ratio

12. Liquid/Quick Assets =

- (A) Current Assets – Prepaid Expenses
- (B) Current Assets – Stock – Prepaid Expenses
- (C) Current Assets + Stock + Prepaid Expenses
- (D) Current Assets – Stock + Prepaid Expenses

13. Which is not Included in quick assets ?

- (A) Trade Receivables
- (B) Cash of Bank
- (C) Cash in Hand
- (D) Inventory

14. If net sales for the year is ₹ 250000 and Debtors ₹50000, then average collection period will be-

- (A) 45 days
- (B) 60 days
- (C) 73 days
- (D) 55 days

11. स्कन्ध आवर्त अनुपात _____ है :

- (A) क्रियाशीलता अनुपात
- (B) लाभदायकता अनुपात
- (C) शोधन क्षमता अनुपात
- (D) तरलता अनुपात

12. तरल/त्वरित सम्पत्ति =

- (A) चालू सम्पत्ति – पूर्वदत्त व्यय
- (B) चालू सम्पत्ति – स्कन्ध – पूर्वदत्त व्यय
- (C) चालू सम्पत्ति + स्कन्ध + पूर्वदत्त व्यय
- (D) चालू सम्पत्ति – स्कन्ध + पूर्वदत्त व्यय

13. तरल सम्पत्तियों में कौन सा शामिल नहीं है?

- (A) व्यापारिक प्राप्य
- (B) बैंक में रोकड़
- (C) हस्तस्थ रोकड़
- (D) स्कन्ध

14. यदि वर्ष की शुद्ध बिक्री 250000₹ तथा देनदार 50,000₹ है तो औसत वसूली अवधि _____ होगी।

- (A) 45 दिन
- (B) 60 दिन
- (C) 73 दिन
- (D) 55 दिन

15. Financial statements contain :
- (A) Monetary information
(B) Qualitative information
(C) Non-monetary information
(D) None of these
16. The term current assets do not include :
- (A) Stock
(B) Debtors
(C) Car
(D) Bills Receivable
17. Interpretation of financial statement includes :
- (A) Criticisms and Analysis
(B) Comparison and trend study
(C) Drawing conclusion
(D) All the above
18. Current Ratio is-
- (A) Profitability Ratio
(B) Solvency Ratio
(C) Activity Ratio
(D) None of these
19. Debtors Turnover Ratio is calculated by :
- (A) $\frac{\text{Credit Sales}}{\text{Average Debtors}}$
(B) $\frac{\text{Total Sales}}{\text{Average Debtors}}$
(C) $\frac{\text{Credit Sales}}{\text{Debtors}} \times 12$
(D) None of these
15. वित्तीय विवरण में समाहित होती है :
- (A) मौद्रिक सूचना
(B) गुणात्मक सूचना
(C) अमौद्रिक सूचना
(D) इनमें से कोई नहीं
16. चालू सम्पत्ति में शामिल नहीं है :
- (A) स्टॉक
(B) देनदार
(C) कार
(D) प्राप्य बिल
17. वित्तीय विवरणों के निर्वचन में _____ शामिल होता है :
- (A) आलोचना एवं विश्लेषण
(B) तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन
(C) निष्कर्ष निकालना
(D) उपरोक्त सभी
18. चालू अनुपात _____ है-
- (A) लाभदायकता अनुपात
(B) शोधन समता अनुपात
(C) क्रियाशीलता अनुपात
(D) इनमें से कोई नहीं
19. देनदार आर्वत अनुपात की गणना की जाती है :
- (A) $\frac{\text{Credit Sales}}{\text{Average Debtors}}$
(B) $\frac{\text{Total Sales}}{\text{Average Debtors}}$
(C) $\frac{\text{Credit Sales}}{\text{Debtors}} \times 12$
(D) इनमें से कोई नहीं

20. ROI is ratio between :
- (A) N/P and capital employed
 (B) Sales & Profit
 (C) Sales & Capital employed
 (D) Both (B) and (C)
21. For calculation of Earning Per Share(EPS) the net profit is divided by :
- (A) The number of preference shares
 (B) The number of equity shares
 (C) The number of both the shares
 (D) None of these
22. A firm has a current ratio of 3:1 its net working capital is ₹2,00,000. You are required to determine current assets.
- (A) 2,00,000
 (B) 3,00,000
 (C) 1,00,000
 (D) 50,000
23. Investment can be :
- (A) Current Assets
 (B) Fixed Assets
 (C) Intangible Assets
 (D) Both (A) and (B)
20. विनियोग पर प्रत्याय _____ के बीच का अनुपात है :
- (A) शुद्ध लाभ एवं विनियोजित पूँजी
 (B) बिक्री एवं लाभ
 (C) बिक्री एवं विनियोजित पूँजी
 (D) (B) एवं (C)दोनों
21. प्रति अंश अर्जन की गणना करने के लिए शुद्ध लाभ को _____ से भाग दिया जाता है:
- (A) पूर्वाधिकार अंशों की संख्या
 (B) समता अंशों की संख्या
 (C) दोनों प्रकार के अंशों की संख्या
 (D) इनमें से कोई नहीं
22. एक फर्म की चालू अनुपात 3:1 है। इसकी शुद्ध कार्यशील पूँजी 2,00,000₹ है। आप चालू सम्पत्ति की गणना कीजिए।
- (A) 2,00,000
 (B) 3,00,000
 (C) 1,00,000
 (D) 50,000
23. विनियोग हो सकता है :
- (A) चालू सम्पत्ति
 (B) स्थायी सम्पत्ति
 (C) अदृश्य सम्पत्ति
 (D) (A) एवं (B) दोनों

24. Purchase of Goodwill by issue of debenture is-
- (A) No flow of funds
(B) Sources of funds
(C) Application of funds
(D) Working capital
25. The term 'Fund' as used in funds flow statement means :
- (A) Current Assets – Current Liabilities
(B) Current Assets
(C) Current Liabilities
(D) Cash
26. Which of the following is not treated as uses of funds :
- (A) Loss from operation
(B) Payment of dividend in cash
(C) Redemption of capital in cash
(D) Sale of fixed assets for cash
27. If opening stock is ₹50000, closing stock is ₹60000 and cost of Goods sold ₹2,20,000, then turnover ratio will be:
- (A) 4 times
(B) 2 times
(C) 3 times
(D) 6 times
24. ऋणपत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय है:
- (A) कोष प्रवाह नहीं
(B) कोष में स्रोत
(C) कोष का प्रयोग
(D) कार्यशील पूँजी
25. कोष प्रवाह विवरण के अंतर्गत 'कोष' शब्द का अर्थ _____ होता है :
- (A) चालू सम्पत्तियां – चालू दायित्व
(B) चालू सम्पत्तिया
(C) चालू दायित्व
(D) रोकड़
26. निम्न में से कौन सा व्यवहार कोष का उपयोग नहीं किया जा सकता :
- (A) परिचालन से हानि
(B) लाभांश का नगद भुगतान
(C) पूँजी का नकद में शोधन
(D) नकद के लिए स्थायी सम्पत्ति का विक्रय
27. यदि प्रारम्भिक रहतिया 50000₹, अन्तिम रहतिया 60000₹ एवं बेचे गये माल की लागत 2,20,000₹ है, तो रहतिया आवर्त अनुपात _____ होगा :
- (A) 4 बार
(B) 2 बार
(C) 3 बार
(D) 6 बार

28. Commonly which ratio is calculated in percentage :
- (A) Activity Ratio
(B) Financial Position Ratio
(C) Profitability Ratio
(D) None of these
29. Which ratio is calculated in times:
- (A) Activity Ratio
(B) Financial Position Ratio
(C) Profitability Ratio
(D) None of these
30. Profit after interest and tax is used in calculating return on :
- (A) Shareholders' funds
(B) Capital employed
(C) Total Assets
(D) None of these
31. Provision for taxation can be treated as :
- (A) Only current liability
(B) Only Appropriation of profit
(C) Any one of the above two
(D) None of these
32. Cash received from Debtors results into :
- (A) Source of funds
(B) Application of funds
(C) No flow of funds
(D) Only (B)
28. सामान्यतया किस अनुपात की गणना प्रतिशत में की जाती है :
- (A) क्रियाशील अनुपात
(B) वित्तीय स्थिति अनुपात
(C) लाभदायकता अनुपात
(D) इनमें से कोई नहीं
29. किस अनुपात की गणना समय में की जाती है :
- (A) क्रियाशील अनुपात
(B) वित्तीय स्थिति अनुपात
(C) लाभदायकता अनुपात
(D) इनमें से कोई नहीं
30. ब्याज एवं कर के पश्चात् लाभ का प्रयोग _____ पर प्रत्याय की गणना में किया जाता है :
- (A) अंशधारियों के कोष
(B) विनियोजित पूँजी
(C) कुल सम्पत्ति
(D) इनमें से कोई नहीं
31. कर के लिए प्रावधान को _____ माना जा सकता है:
- (A) केवल चल दायित्व के रूप में
(B) केवल लाभ नियोजन के रूप में
(C) उपरोक्त दोनों में से किसी एक में
(D) इनमें से कोई नहीं
32. देनदारों से रोकड़-प्राप्ति का प्रभाव होता है:
- (A) कोष का स्रोत
(B) कोष का प्रयोग
(C) कोष -प्रवाह नहीं
(D) सिर्फ (B)

33. Flow of funds takes place, where-
- (A) Cash is received from debtors
- (B) Cash is paid to creditors
- (C) Machinery is purchased for cash
- (D) None of these
34. Which of the following item is not operating expenses ?
- (A) Interest
- (B) Salaries
- (C) Postage
- (D) (B) & (C) both
35. When the total of sources side exceeds the total of application side the effect of it is -
- (A) Increases in Net working Capital
- (B) Decrease in Net working Capital
- (C) No effect on working Capital
- (D) None of these
36. Opening stock is-
- (A) Application of funds
- (B) Source of funds
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of these
33. कोष-प्रवाह होता है, जब-
- (A) देनदारों से रोकड़ प्राप्त होता है
- (B) लेनदारों से रोकड़ में भुगतान होता है
- (C) नकद में मशीनरी का क्रय होता है
- (D) इनमें से कोई नहीं
34. निम्नलिखित में से कौन-सी मद संचालन व्यय नहीं है ?
- (A) ब्याज
- (B) वेतन
- (C) डाक
- (D) (B) एवं (C) दोनों
35. जब कुल स्रोतों का योग कोषों के प्रयोग के योग से अधिक होता है तो इसका प्रभाव होता है-
- (A) शुद्ध कार्यशील पूँजी में वृद्धि
- (B) शुद्ध कार्यशील पूँजी में कमी
- (C) कार्यशील पूँजी पर कोई प्रभाव नहीं
- (D) इनमें से कोई नहीं
36. प्रारम्भिक रहतिया होता है :
- (A) कोष का प्रयोग
- (B) कोष का स्रोत
- (C) (A) एवं (B) दोनों
- (D) इनमें से कोई नहीं

37. Which of the following is not the source of cash ?
- (A) Purchase of fixed Assets
(B) Funds from operation
(C) Issue of debenture
(D) Sales of fixed Assets
38. Decrease in creditors is-
- (A) Application of cash
(B) Source of cash
(C) Only (B)
(D) None of these
39. Increase in Premium is -
- (A) Source of cash
(B) Application of cash
(C) Both (A) and (B)
(D) None of these
40. Which of the following is not a part of cash and cash equivalents?
- (A) Inventory
(B) Current Inventory
(C) Short term deposit
(D) Marketable security
41. Interest received in cash on loans and advances results in cash inflow from ___ activity.
- (A) Financing
(B) Investing
(C) Operating
(D) None of these
37. निम्नलिखित में कौन रोकड़ का स्रोत नहीं है ?
- (A) स्थायी सम्पत्तियों का क्रय
(B) संचालन से कोष
(C) ऋण-पत्र का निर्गमन
(D) स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री
38. लेनदारों में कमी रोकड़ का है-
- (A) रोकड़ का प्रयोग
(B) रोकड़ का स्रोत
(C) सिर्फ (B)
(D) इनमें से कोई नहीं
39. अंश प्रीमियम में वृद्धि है -
- (A) रोकड़ का स्रोत
(B) रोकड़ का प्रयोग
(C) (A) एवं (B) दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं
40. निम्नलिखित में से कौन सा नकद एवं नकद सम्बन्धों का हिस्सा नहीं है ?
- (A) इन्वेंटरी
(B) वर्तमान निवेश
(C) अल्पावधि जमा
(D) विपणन योग्य सुरक्षा
41. ऋणों एवं अग्रिमों पर नकद में प्राप्त ब्याज के परिणामस्वरूप ___ गतिविधि से नकदी प्रवाह होता है।
- (A) वित्तीय
(B) निवेश
(C) संचालन
(D) इनमें से कोई नहीं

42. An example of cash flows from financing activity is _____.
- (A) Sale of Goods
(B) Sale of investment
(C) Cash receipts from issue of shares
(D) Interest Received
43. Cash flow statement is prepared from :
- (A) Balance sheet
(B) Profit and Loss Account
(C) Additional information
(D) All of these
44. Which one of the following is not a non-cash item ?
- (A) Cash sales
(B) Goodwill written off
(C) Depreciation
(D) Provision of Bad Debts
45. Cash flow statement is related to-
- (A) AS-3
(B) AS-2
(C) AS-1
(D) AS-6
42. वित्तीय गतिविधि से नकदी प्रवाह का _____ एक उदाहरण है।
- (A) माल की बिक्री
(B) निवेश की बिक्री
(C) शेयरों के जारी होने से नकद प्राप्तियां
(D) ब्याज प्राप्त हुआ
43. कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है :
- (A) बैलेंस शीट
(B) लाभ और हानि खाता
(C) अतिरिक्त जानकारी
(D) उपरोक्त सभी
44. निम्नलिखित में से कौन-सी गैर-नकद नहीं है :
- (A) नकद बिक्री
(B) ख्याति अपलिखित
(C) ह्रास
(D) अशोध्य ऋण प्रावधान
45. कैश फ्लो स्टेटमेंट _____ संबंधित है।
- (A) AS-3
(B) AS-2
(C) AS-1
(D) AS-6

46. Cash flow is classified into -
- (A) Operating Activities & Investing Activities
 (B) Investing Activities & Financing Activities
 (C) Operating Activities & Investing Activities
 (D) Operating Activities, Financing Activities and Investing Activities
47. Cash flow statement is based upon-
- (A) Cash
 (B) Accrual
 (C) Credit
 (D) None of the above
48. The statement that shows a company's cash situation is called-
- (A) Cash flow statement
 (B) Income statement
 (C) Balance sheet
 (D) None of these
49. Cash and cash equivalents include.
- (A) Bank Balance
 (B) Commercial paper
 (C) Short term Government bonds
 (D) All of the above
50. Cash flow statement is prepared for financial planning of :
- (A) Long Range
 (B) Medium Range
 (C) Short Range
 (D) Very long Range
46. रोकड़-प्रवाह को वर्गीकृत किया जाता है-
- (A) परिचालन क्रियाओं एवं विनियोजन क्रियाओं
 (B) विनियोजन क्रियाओं एवं वित्तीय क्रियाओं
 (C) परिचालन क्रियाओं एवं विनियोजन क्रियाओं
 (D) परिचालन क्रियाओं, वित्तीय क्रियाओं एवं विनियोजन क्रियाओं
47. रोकड़ प्रवाह विवरण _____ पर आधारित है-
- (A) रोकड़
 (B) उपार्जन
 (C) क्रेडिट
 (D) इनमें से कोई नहीं
48. वह विवरण जो किसी कंपनी की नकदी स्थिति को दर्शाता है, _____ कहलाता है-
- (A) रोकड़ प्रवाह विवरण
 (B) आय विवरण
 (C) आर्थिक चिह्न
 (D) इनमें से कोई नहीं
49. रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में शामिल हैं।
- (A) बैंक बैलेंस
 (B) वाणिज्यिक पत्र
 (C) अल्पकालिक सरकारी बाण्ड
 (D) उपरोक्त सभी
50. वित्तीय नियोजन के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है :
- (A) दीर्घकालिक
 (B) मध्यम अवधि
 (C) अल्पावधि
 (D) बहुत लंबी अवधि
